



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2012/अग्रहायण 16, 1934

No. 627]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2012/AGRAHAYANA 16, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 882(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद में अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (राष्ट्रीय कीटनाशक अभिदेशन संग्रह), अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (राष्ट्रीय कीटनाशक अन्वेषणात्मक प्रयोगशाला) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (राष्ट्रीय कीटनाशक अभिदेशन संग्रह), अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (राष्ट्रीय कीटनाशक अन्वेषणात्मक प्रयोगशाला) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (राष्ट्रीय कीटनाशक अभिदेशन संग्रह)	1* (2012) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क राजपत्रित - (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड- 4, 37400 -67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>(i) वेतन बैंड-3, 15600-39100/-रु. + ग्रेड वेतन 7600/-रु. में ऐसा संयुक्त निदेशक(रसायन)जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान में डॉक्ट्रेट डिग्री हो।</p> <p>(ii) वेतन बैंड- 3, 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन 7600/-रु. में ऐसा संयुक्त निदेशक (रसायन) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और वेतन बैंड-3, 15600-39100/-रु. + ग्रेड वेतन 7600/-रु. में संयुक्त निदेशक (रसायन) के पद पर और 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600/-रु. में उप-निदेशक(रसायन) के पद पर कुल मिलाकर दस वर्ष सम्मिलित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान में डॉक्ट्रेट डिग्री हो।</p> <p>टिप्पण: 1 ऐसे पदधारी जो इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को नियमित</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव(वनस्पति संरक्षण) कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य 3. संयुक्त सचिव(प्रशासन) कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य 4. वनस्पति संरक्षण सलाहकार - सदस्य 	<p>किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक।</p>

आधार पर संयुक्त निदेशक(रसायन) के फीडर पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव-रसायन में विशेषज्ञता के साथ रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री है, भी प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

टिप्पण: 2 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण - 3 अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (राष्ट्रीय कीटनाशक अभिदेशन संग्रह) के पद पर नियुक्त अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (राष्ट्रीय कीटनाशक अन्वेषणात्मक प्रयोगशाला)

<p>या अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला) या अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार(केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति) के रूप में तैनात किया जा सकता है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, (15600-39100/-रु.) + ग्रेड वेतन 7600/-रु. या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में, अधिमानतः कीटनाशकों के</p>		
--	--	--

4528 4712-2

क्षेत्र में डॉक्ट्रेट डिग्री ;

(ii) कीटनाशकों के रसायन विज्ञान से संबंधित कार्य में पर्यवेक्षी हैसियत का बारह वर्ष का अनुभव और कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के उपबंधों का कार्यान्वयन करने का अभिदर्शन।

टिप्पण - 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण: 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण - 3 प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी

अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (राष्ट्रीय कीटनाशक अन्वेषणालय प्रयोगशाला)	1* (2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क राजपत्रित - (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड- 4; 37400 -67000-रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>(i) वेतन बैंड-3, 15600-39100/-रु. + ग्रेड वेतन 7600/-रु. में ऐसा संयुक्त निदेशक(रसायन)जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान में डॉक्ट्रेट डिग्री हो।</p> <p>(ii) वेतन बैंड- 3, 15600-39100/- रु. + ग्रेड वेतन 7600/-रु. में ऐसा संयुक्त निदेशक (रसायन) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और वेतन बैंड-3, 15600-39100/-रु. + ग्रेड वेतन 7600/-रु. में संयुक्त निदेशक (रसायन) के पद पर और 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600/-रु. में उप-निदेशक(रसायन) के पद पर कुल मिलाकर दस वर्ष सम्मिलित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायन विज्ञान में डॉक्ट्रेट डिग्री हो।</p> <p>टिप्पण: 1 ऐसे पदधारी जो इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर संयुक्त निदेशक(रसायन) के फीडर पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास किसी</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति समूह 'क' (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव(वनस्पति संरक्षण) कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य 3. संयुक्त सचिव(प्रशासन) कृषि एवं सहकारिता विभाग - सदस्य 4. वनस्पति संरक्षण सलाहकार - सदस्य 	<p>किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित) नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक।</p>

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव-रसायन में विशेषज्ञता के साथ रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री है, भी प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

टिप्पण: 2 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण - 3 अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (राष्ट्रीय कीटनाशक अन्वेषणात्मक प्रयोगशाला) के पद पर नियुक्त अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (राष्ट्रीय कीटनाशक अभिदेशन संग्रह) या अपर वनस्पति संरक्षण सलाहकार (केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला) या अपर

वनस्पति संरक्षण
सलाहकार(केन्द्रीय
कीटनाशी बोर्ड एवं
पंजीकरण समिति) के रूप
में तैनात किया जा सकता
है।

प्रतिनियुक्ति: (जिसके
अंतर्गत अल्पकालिक
संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार या राज्य
सरकारों या संघ राज्य
क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों
या मान्यताप्राप्त अनुसंधान
संस्थानों या पब्लिक
सेक्टर उपक्रमों या
अर्धसरकारी या स्वायत्त या
कानूनी संगठनों के अधीन
ऐसे अधिकारी;

(क) (i) जो मूल काडर
या विभाग में नियमित
आधार पर सदृश पद धारण
किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर
या विभाग में वेतन बैण्ड-3,
(15600-39100/-रु.) +
ग्रेड वेतन 7600/-रु.

या समतुल्य पदों पर
नियमित आधार पर नियुक्ति
के पश्चात उस श्रेणी में
पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास
निम्नलिखित शैक्षिक
अर्हताएं और अनुभव है:

(i) किसी मान्यताप्राप्त
विश्वविद्यालय या संस्थान
से रसायन विज्ञान में,
अधिमानतः कीटनाशकों के
क्षेत्र में डॉक्ट्रेट डिग्री ;

(ii) कीटनाशकों के

रसायन विज्ञान से संबंधित कार्य में पर्यवेक्षी हैसियत का बारह वर्ष का अनुभव और कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के उपबंधों का कार्यान्वयन करने का अभिदर्शन।

टिप्पण - 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण: 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण - 3 प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी,

<p>2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

[फा. सं. 12018/15/2011-पीपी (स्था.)]

वन्दना जैन, निदेशक (पी.पी.-I)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2012

G.S.R. 882(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Additional Plant Protection Adviser (National Pesticides Reference Repository), Additional Plant Protection Adviser (National Pesticides Investigational Laboratory) in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Faridabad Additional Plant Protection Adviser (National Pesticides Reference Repository), Additional Plant Protection Adviser (National Pesticides Investigational Laboratory) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classification and pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

4528 9/12-4

SCHEDULE

Name of the post	Number of the post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	whether selection post or Non selection post	Age Limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Additional Plant Protection Adviser (National Pesticides Reference Repository)	1* (2012) (* Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Pay band-4, Rs.37400-67000/- with grade pay of Rs.87 00/-	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short term contract).

In case recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	(11)	If a Departmental Promotion Committee exists, what its composition?	(12)	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	(13)
<p>Promotion:</p> <p>(I) Joint Director (Chemistry) in the pay band – 3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/- with five years regular service in the grade and having a Doctorate Degree in Chemistry from a recognized University or Institution; or</p> <p>(II) Joint Director (Chemistry) in the pay band- 3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/- with three years regular service in the grade and having ten years combined regular service in the Joint Director (Chemistry) in pay band – 3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/- and Deputy Director (Chemistry) in the pay band of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.6600/- and possessing a Doctorate Degree in Chemistry from a recognized University or Institution.</p> <p>Note-1: The incumbents holding the feeder post of Joint Director (Chemistry) on regular basis as on the date of notification of these rules and holding a master's degree, in Chemistry with specialization in Organic Chemistry from a recognized University or Institution shall also be eligible for promotion.</p> <p>Note-2: Where juniors who have completed their</p>		<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman or Member Union Public Service Commission - Chairman 2. Joint Secretary (Plant Protection) Department of Agriculture and Co-operation - Member 3. Joint Secretary (Administration) Department of Agriculture and Co-operation - Member 4. Plant Protection Adviser - Member 		<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract)</p>	

<p>qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Note-3: An officer appointed as Additional Plant Protection Adviser (National Pesticides Reference Repository) can be posted as Additional Plant Protection Adviser (National Pesticides Investigational Laboratory) or Additional Plant Protection Adviser (Central Insecticides Laboratory) or Additional Plant Protection Adviser (Central Insecticides Board and Registration Committee) as and when situation so demand, with the approval of competent authority.</p> <p>Deputation (Including Short Term Contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognized research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organizations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-3, (Rs.15600-39100/-) with grade pay Rs.7600/-</p>
---	--

	<p>or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Doctorate Degree in Chemistry from a recognized University or Institution, preferably in the field of pesticides;</p> <p>(ii) twelve years' experience in a supervisory capacity in the work related to Chemistry of pesticides and having exposure to implementation of provisions of the Insecticides Act, 1968. (46 of 1968)</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note-2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Note-3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (date from which the</p>
--	---

revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Additional Plant Protection Adviser (National Pesticides Investigational Laboratory).	1* (2012) (* Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Pay band-4, Rs.37400-67000/- with grade pay of Rs.87 00/-	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short term contract).

4528 9612-6

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>(I) Joint Director (Chemistry) in the pay band – 3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/- with five years regular service in the grade and having a Doctorate Degree in Chemistry from a recognized University or Institution; or</p> <p>(II) Joint Director (Chemistry) in the pay band- 3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/- with three years regular service in the grade and having ten years combined regular service in the Joint Director (Chemistry) in pay band – 3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/- and Deputy Director (Chemistry) in the pay band of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.6600/- and possessing a Doctorate Degree in Chemistry from a recognized University or Institution.</p> <p>Note-1: The incumbents holding the feeder post of Joint Director (Chemistry) on regular basis as on the date of notification of these rules and holding a master's degree in Chemistry with specialization in Organic Chemistry from a recognized University or Institution shall also be eligible for promotion.</p> <p>Note-2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more half of such qualifying or</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -</p> <p>1. Chairman or Member Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>2. Joint Secretary (Plant Protection) Department of Agriculture and Co-operation - Member</p> <p>3. Joint Secretary (Administration) Department of Agriculture and Co-operation - Member</p> <p>4. Plant Protection Adviser - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract)</p>

		<p>eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note-3: An officer appointed as Additional Plant Protection Adviser (National Pesticides Investigational Laboratory) can be posted as Additional Plant Protection Adviser (National Pesticides Reference Repository) or Additional Plant Protection Adviser (Central Insecticides Laboratory) or Additional Plant Protection Adviser (Central Insecticides Board and Registration Committee) as and when situation so demand, with the approval of competent authority.</p> <p>Deputation (Including Short Term Contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognized research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organizations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-3, (Rs.15600-39100/-) with grade pay Rs.7600/- or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Doctorate Degree in Chemistry from a recognized</p>
--	--	--

4528 46/12-7

<p>University or Institution, preferably in the field of pesticides;</p>	<p>(ii) twelve years' experience in a supervisory capacity in the work related to Chemistry of pesticides and having exposure to implementation of provisions of the Insecticides Act, 1968. (46 of 1968)</p>	<p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Note-2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>	<p>Note-3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission</p>
--	---	--	--	--

<p>except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.</p>		
---	--	--

[F. No. 12018/15/2011-PP (Estt.)]
VANDANA JAIN, Director (P.P.-1)